



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]
No. 17]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2008/माघ 25, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2008/MAGHA 25, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 11 फरवरी, 2008

सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए विज्ञापन सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल

आदेश

(जनवरी 2008 के 28वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए विज्ञापन सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीपीसीएल) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बन्धित है।

2. इस प्राधिकरण ने वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता को 31 जुलाई, 2007 तक अथवा प्रस्ताव के अंतिम निपटान तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक विस्तारित करते हुए दिनांक 28 मार्च, 2007 को एक आदेश पारित किया था। उक्त आदेश 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। राजपत्र अधिसूचना सं. 163 द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किये गये हमारे आदेश सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल द्वारा, वीएसएल के दरमान की वैधता को ओर आगे 31 दिसंबर, 2007 तक विस्तारित किया गया था।

3. जैसाकि, दिनांक 12 जून, 2007 को आयोजित संयुक्त सुनवाई में वीएसएल द्वारा आवस्त किया गया था, उन्होंने एक संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है। वीएसएल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित प्रस्ताव को वीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप से एक संयुक्त सुनवाई के पश्चात् जिसकी व्यवस्था की जाने वाली है, निपटा दिया जायेगा। अतः यह प्राधिकरण वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता को आगे अन्य छः माह के लिए 30 जून, 2008 तक अथवा अनुमोदन किये जाने वाले दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/07/अस.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 11th February, 2008

No. TAMP/33/2004-VSL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Limited for its operation at the berth numbers EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/33/2004-VSL

ORDER

(Passed on this 28th day of January, 2008)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Limited (VSL) for its operation at the berth numbers EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2. This Authority had passed an Order on 28 March, 2007 extending the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the VSL till 31 July, 2007 or till final disposal of the proposal, whichever is earlier. The said Order was notified in the Gazette of India on 10 April, 2007. The validity of the Scale of Rates of VSL was further extended till 31 December, 2007 vide our Order No. TAMP/33/2004-VSL notified on 16 August, 2007 *vide* Gazette notification No. 163.

3. As assured by the VSL in the joint hearing held on 12 June, 2007, it has filed a revised proposal. The revised proposal filed by VSPL has been circulated to the VPT and concerned users/users Associations for comments. The proposal will be finally disposed after a joint hearing which is yet to be set up. This Authority, therefore, decides to extend the validity of the existing Scale of Rates of the VSL for another six months till 30 June, 2008 or till effective date of implementation of the revised Scale of Rates to be approved, whichever is earlier.

BRAHMDUTT, Chairman

[ADVT/III/4/143/07/Ext.]